



Train

रेलगाडी

ರೈಲು ಗಾಡಿ





I sat in the train
में रेलगाड़ी में बैठी
नासु रेलीनल्लि कुळते



Whistle sounded, train started

सीटी बजी, रेलगाडी चली

ಶಿಳ್ಳೆಯಾಯಿತು, ರೈಲು ಹೊರಟಿತು



Station came
स्टेशन आया
निल्लाण बందిतु

Second station
दूसरा स्टेशन
वरडने निल्लाण



Third station
तीसरा स्टेशन
मोरने निल्लाण



Time to get down

उतरने का समय आ गया

ಇಳಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು

I caught my father's hand

मैंने पिताजी का हाथ पकड़ा

ನಾನು ತಂದೆಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ



People pushed from behind

लोगों ने पीछे से धक्का दिया
जनरु हिन्दिन्दि नुकिदरु

We came out automatically

हम अपने आप ही बाहर आ गए
नरवु नमृष्णुक्के हौर बन्देवु

आगगाडी

TICKET WINDOW



श्री राम कृष्ण मिशन
एडिटर
विभाग - प्रकाशन
एन.बी.ट्रस्ट इंडिया
एन. ११.११

